

Roll No.

AH-5201

B. Com. (First Semester)

Discipline Specific Core Course (COSC-01)
EXAMINATION, Dec./Jan., 2024-25

Paper First

FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Answer all questions.

खण्ड—अ

(Section—A)

नोट : सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10×1=10

Answer all objective type questions.

1. व्यवसाय अस्तित्व धारणा का अर्थ है :

(अ) व्यवसाय का अलग अस्तित्व

P. T. O.

- (ब) व्यवसाय और व्यवसायी एक साथ
 (स) व्यवसाय और महाजन एक साथ
 (द) व्यवसाय और ऋणी एक साथ

Business entity concept means :

- (a) Separate existence of business
 (b) Business and businessman together
 (c) Business and creditor together
 (d) Business and debtor together

2. दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं :

- (अ) वैज्ञानिक प्रणाली
 (ब) वित्तीय स्थिति का ज्ञान
 (स) दोनों पक्षों का लेखा
 (द) उपर्युक्त सभी

Advantages of double entry system are :

- (a) Scientific system
 (b) Knowledge of financial position
 (c) Entry of both aspects
 (d) All of the above

3. रोकड़बही है :

- (अ) ज्ञापन बही
 (ब) प्रधान बही
 (स) सहायक बही
 (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

Cashbook is a :

- (a) Memorandum Book
 (b) Principal Book
 (c) Subsidiary Book
 (d) None of the above

4. स्थायी प्रभाग विधि में ह्रास की राशि :

- (अ) घटती है
 (ब) बढ़ती है
 (स) स्थिर रहती है
 (द) उपर्युक्त में से कोई नहीं

[4]

AH-5201

Under fixed instalment method amount of depreciation goes on :

- (a) decreasing
- (b) increasing
- (c) remain constant
- (d) None of the above

5. अंतिम खाते हैं :

- (अ) खाते
- (ब) विवरण
- (स) खाते और विवरण
- (द) खाताबही

Final accounts is :

- (a) Account
- (b) Statement
- (c) Account and Statement
- (d) Ledger

[5]

AH-5201

6. अग्रिम प्राप्त आय है :

- (अ) दायित्व
- (ब) सम्पत्ति
- (स) व्यय
- (द) आय

Income received in advance is :

- (a) a liability
- (b) an asset
- (c) an expense
- (d) an income

7. रोकड़बही के बैंक खाने का नाम शेष प्रकट करता है :

- (अ) जमा
- (ब) अधिविकर्ष
- (स) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- (द) दोनों (अ) और (ब)

P.T.O.

[6]

AH-5201

Debit balance in the bank column of cashbook means :

- (a) Deposit
- (b) Overdraft
- (c) None of the above
- (d) Both (a) and (b)

8. तलपट तैयार किया जाता है :

- (अ) जनवरी 1 को
- (ब) दिसम्बर 31 को
- (स) जून 30 को
- (द) किसी विशेष तिथि को

The Trial Balance is prepared on :

- (a) January 1
- (b) December 31
- (c) June 30
- (d) A particular date

[7]

AH-5201

9. टैली में कितने प्रकार के उपयोगकर्ता मौजूद होते हैं ?

- (अ) 1
- (ब) 2
- (स) 3
- (द) 4

How many types of users are there in Tally ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

10. सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जो हमारे कम्प्यूटर को नियंत्रित करता है।

- (अ) सिस्टम
- (ब) एप्लीकेशन
- (स) विंडोज
- (द) उपर्युक्त सभी

P. T. O.

Software is a/an program that controls our computer.

- (a) system
- (b) application
- (c) windows
- (d) All of the above

नोट : सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5×4=20

Answer all short answer type questions.

1. द्विप्रविष्टि प्रणाली क्या है ?

What is Double Entry System ?

2. हास के आयोजन के चार कारणों को बताइये।

State four causes of providing depreciation.

3. अंतिम खाते बनाने के लाभों का वर्णन कीजिए।

Explain the advantages of preparing final accounts.

4. कम्प्यूटरीकृत लेखा प्रणाली का स्वचालन क्या है ?

What is automation of Computerized Accounting System ?

5. तलपट का अर्थ लिखिए।

Write the meaning of Trial Balance.

खण्ड—ब प्रत्येक 10

(Section—B)

नोट : प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर कीजिए।

Attempt one question from each Unit.

इकाई—1

(UNIT—1)

1. लेखांकन अवधारणाओं से आप क्या समझते हैं ? किन्हीं चार को बताइये।

What do you mean by Accounting concepts ?
Mention any four.

अथवा

(Or)

भारत में लेखांकन पेशे के जनक श्री के. एस. अय्यर के इतिहास और योगदान का वर्णन कीजिए।

Describe the history and contributions of Mr. K. S. Ayyar the founder of the accounting profession in India.

इकाई-2

(UNIT-2)

2. तलपट किसे कहते हैं ? तलपट बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए।

What is Trial Balance ? Describe the methods of preparation of Trial Balance.

अथवा

(Or)

एक ट्रांसपोर्ट कंपनी 1 जुलाई, 2018 को प्रत्येक ₹ 2,00,000 के 5 ट्रक खरीदती है। कंपनी मूल लागत पर 20% प्रति वर्ष ह्रास अपलिखित करती है।

1 जनवरी, 2021 को एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं पूर्णतः नष्ट हो जाता है। बीमा कम्पनी दावे के पूर्ण निपटारे में ₹ 90,000 का भुगतान करती है। इसी तिथि को कंपनी ₹ 1,00,000 में एक पुराना ट्रक खरीदती है एवं इसकी ओवरहॉलिंग पर ₹ 20,000 व्यय करती है।

मार्च 2021 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष के लिए ट्रक खाता बनाइए।

A transport company purchases 5 trucks at ₹ 2,00,000 each on July 1, 2018. The company writes off depreciation @ 20% per annum on original cost.

On Jan. 1, 2021 one of the truck is involved in an accident and is completely destroyed. Insurance company pays ₹ 90,000 in full settlement of the claim. On the same day the company purchases a used truck for ₹ 1,00,000 and spends ₹ 20,000 on its overhauling.

Prepare Truck Account for three years ending on March 2021.

इकाई-3

(UNIT-3)

3. 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री सुरेश ट्रेडर्स के निम्नांकित विवरण से व्यापारिक एवं लाभ-हानि खाता बनाइये :

	₹	₹
प्रारंभिक रहतिया	8,000	
क्रय	50,000	
क्रय वापसी		300

[12]

AH-5201

आन्तरिक वापसी	600	82,000
विक्रय	200	
आन्तरिक गाड़ी भाड़ा	500	
मजदूरी	300	
किराया व कर	600	
व्यापारिक व्यय	40	
कटौती		50
क्रय पर कटौती	10	
कमीशन	2,000	
वेतन	50	
कानूनी व्यय	60	
अंकेक्षण शुल्क	40	
बैंक व्यय	50	
जी. एस. टी.		60
आहरण पर ब्याज		200
विनियोग से ब्याज		
मरम्मत एवं नवीकरण	260	

अंतिम रहतिया ₹ 1,000 ।

P. T. O.

[13]

AH-5201

From the following particulars of Shri Suresh Traders in respect of the year ending 31st March, 2013, prepare his Trading and Profit & Loss A/c :

	₹	₹
Opening Stock	8,000	
Purchases	50,000	
Purchases Return		300
Returns inward	600	
Sales		82,000
Carriage inward	200	
Wages	500	
Rent and Taxes	300	
Trade Expenses	600	
Discount	40	
Discount on Purchase		50
Commission	10	
Salaries	2,000	
Legal Expenses	50	

[14]

AH-5201

Audit Fees	60	
Bank Charges	40	
GST	50	
Interest on drawings		60
Interest from investment		200
Repairs and Renewals	260	

Closing stock ₹ 1,000.

अथवा

(Or)

अशुद्धियों के सुधार की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

Describe the various methods of rectification of errors.

इकाई—4

(UNIT—4)

4. कम्प्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली क्या है ? इसके लाभों एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए।

What is Computerized Accounting System ?

Describe its advantages and limitations.

AH-5201

[15]

अथवा

(Or)

टैली सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझाते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Explain the concept of Tally Software and describe its features.

AH-5201

7,660